

Date: September 28, 2023

To, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Subject : Corrigendum to the Newspaper advertisement regarding proposed Rights Issue of the Fully Paid-up Equity Shares of Dudigital Global Limited ("the Company").

Dear Sir/Madam,

With regard to the captioned subject, please note that the Company has proposed a Rights Issue of upto 1,16,22,080 fully paid-up Equity Shares of face value of \gtrless 2/- each ("Rights Equity Shares") for cash at a price of Rs. 26.50/- per Rights Equity Share, for an aggregate amount of upto Rs.3,079.85/- Lakh on rights basis to the eligible shareholders of the Company in the ratio of 1 Rights Equity Share for every 5 Fully Paid-up Equity Shares held by the Eligible Equity shareholders as on the record date.

In this regard, the Company gave a Newspaper Advertisement dated September 26, 2023, published on September 27, 2023, in the Financial Express - English (All Edition) and Jansatta - Hindi (All Edition). Submitted with National Stock Exchange of India Limited on September 27, 2023.

Further, the Company issued a Corrigendum to the aforesaid Newspaper Advertisement, which is dated September 27, 2023, published on September 28, 2023, in the Financial Express – English (All Edition) and Jansatta – Hindi (All Edition), same is Annexed herewith this letter.

Copy of the above advertisements will also be made available on the website of the Company at <u>www.dudigitalglobal.com</u>.

Kindly take the above information on your records.

Thanking You, For Dudigital Global Limited

Abhishek Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

DUDIGITAL GLOBAL LIMITED

Formerly known as DU Digital Technologies Limited REGISTERED ADDRESS: C-4, SDA COMMUNITY CENTRE, HAUZ KHAS, NEW DELHI, DELHI- 110016 Contact No:011-40450533, Website:Dudigitalglobal.com, Mail:cs@Dudigitalglobal.com CIN: L74110DL2007PLC171939

SBFC

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड पंजीकत कार्यालय : यनिट नं. 103. प्रथम तल. सीएण्डबी स्क्वेयर. संगम कॉम्पलेक्स. ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जैसाकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों से सुचना में उल्लिखित राशि का कथित सुचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सुचना जारी की थी।

कर्जदार/सह-कर्जदारों द्वारा राशि का पनर्भगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदारों को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पटित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त जफितयों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर निम्नलिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार/सह-कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा

कर्जदारों का नाम एवं पता तथा मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति(यों) का विवरण तथा कब्जा करने की तिथि	कब्जा सूचना में मांगी गयी राशि (र.)
1. निर्मला कुमारी, 2. ललित अग्रवाल, मकान नंबर 5, बी/30, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, जोधपुर, राजस्थान - 342008 मांग सूचना दिनांक: 7 मार्च 2022 ऋण संख्या 04700004930DH (PR00682681)	संपत्ति मकान संख्या 5-बी-30 का समस्त भाग, चोपासानी हाडसिंग बोर्ड, जोधपुर, सीमाएं : उत्तर में - मकान संख्या 5-बी-31, दक्षिण - मकान संख्या 5-बी-28, पूर्व - मकान संख्या 5- बी-11, पश्चिम - 30' रोड, कुल क्षेत्रफल 15 x8 - 120 वर्ग मीटर - 1291.20 वर्ग फुट। कब्बो की तिथि: 26-सितंबर-2023	14 फरवरी 2023 तक रु. 2201429/- (रुपये वाईंस लाख एक हजार चार सौ उनतीस मात्र)

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

मांग सूचना

ह/-(अधिकृत प्राधिकारी) स्थान : जोधपुर तिथि : 28/09/2023 एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

MOTILAL OSWAL HOME LOANS

पंजीकृत कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर्स, रहीमुल्लाह सयानी मार्ग, परेल एसटी डिपो के सम्मुख, प्रभादेवी, मुंबई – 400 025, दूरभाष : (022) 47189999 वेबसाइट : www.motilaloswalhf.com, ईमेल : hfquery@motilaloswal.com

(वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत और उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनायें निर्गत की हैं, जिनमें उधारकर्ताओं) / सह–उधारकर्ताओं), गारंटर(रों) को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचनाओं में अंकित ऋण राशि का प्रतिभुगतान करने के लिये कहा गया है। उपरोक्त सूचना के संदर्भ में एतदद्वारा एक बार पुनः समस्त पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि वे यहां इसमें निम्न तालिका में उल्लेखित राशियों का भुगतान की तिथि तक मांग सूचना की तिथि(यों) से भावी ब्याज के साथ भूगतान कर दें। उधारकर्ताओं), मांग सूचना की तिथि पर नियत राशियां तथा ऋण राशि के प्रतिभूगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति के विवरण निम्नानसार प्रस्तत हैं :--

-			
क्र. सं.	ऋण अनुबंध सं./उधारकर्ता(ओ)/ सह—उधारकर्ता(ओ) के नाम/सह—आवेदक का नाम/गारंटर का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिमूत परिसंपत्ति/(यों) (अचल संपत्ति/यों) के विवरण
	LXMOFARIDA722-230660167 / अनिल गुप्ता/सीमा गुप्ता	18—09—2023 रु. 30,70,468 / — (रुपये तीस लाख सत्तर हजार चार सौ अड़सट मात्र)	संपत्ति सं. 338, द्वितीय एवं तृतीय तल छताधिकारों के साथ, सेक्टर–2, रोहिणी, दिल्ली–110085
2	LXMOFARIDA721-220625538 / अनुज चौहान⁄रजनी सिंह	18—09—2023 रु. 12,53,766 / — (रुपये बारह लाख तिरेपन हजार सात सौ छियासठ मात्र)	खसरा सं.—308, ग्राम—सदुल्लाबाद प्रीत विहार, तहसील—लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102
उधारक अधिनिज बंधित f	र्ताओं के जोखिम पर अधिनियम की धारा 13(4) यम के अंतर्गत, एमओएचएफएल की पूर्व लिखित र	एवं लागू नियमावली के अंतर्गत, उपरोत्त नहमति के बिना, उपरोक्त परिसंपत्तियों को न के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचि	मओएचएफएल, पूरी तरह से लागत एवं परिणामों से संबंधित उक्त 5 परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उक्त उधारकर्ताओं को बिक्री, पट्टे के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रति. त नियमावली का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिये उकसाता दिया जायेगा।
	: दिल्ली : 28–09–2023		हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,

(मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड)


IndusInd Bank

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the Certificates for Equity 1950 Shares face value Rs.10/- Dist. Nos 3511496-3512495 & 3512546-3513495, Certificate Number: 73317-336 & 73338-356 of Nestle India Ltd standing in the name of BHAGWANDAS GIRDHARDAS have been lost or mislaid and the undersigned. GOPAL DAS BHAGWANDAS has applied to the Company to issue duplicate Certificate(s) for the said shares. Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office.100/101, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi, Delhi, 110001 within one month from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate(s).

Place: Delhi

Date: 28th September 2023



contents, nor for any loss of result of transactions with co individuals advertising in its n We therefore recomme necessary inquiries before entering into any agreem otherwise acting on an adve Sd/ whatsoever. **GOPAL DAS BHAGWANDAS**

जलप्रता

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी

Chola कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल चेन्नई–600032. चंडीगढ शाखा पता : एससीओं नंबर 350–351–352, तृतीय तल, Service areas da चंडीगढ़–160022 शाखा कार्यालय : एससीओ 193, द्वितीय तल, निकट सिटी पार्क, सेक्टर–12, क

कब्जा सूचना – (नियम 8(1) के तहत)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पूनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम क अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके न में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भगतान उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सु है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित तदधीन विरचित नियमावली के नियम 9 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एप तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पन कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्याभुत आस्ति छडा सकते हैं।

क्र. सं. (ए)	कर्जदार⁄रों का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या (बी)	मांग सूचना की तिथि (सी)	बकाया राशि (डी)	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण (ई)	কब্जা কী तिथि (एफ)
1.	 ऋण सं. X0HEKHE00001615209 तथा HE02KHE00000004930 कर्जदार एवं सह-कर्जदार : 1. सुनील दत्त पुत्र अशोक दत्त 2. सुनीता देवी पत्नी सुनील दत्त 3. अशोक दत्त पुत्र हरगुल लाल 4. राज दुलारी पत्नी अशोक दत्त 5. मैसर्स सुनील डेरी फार्म इसके स्वामी (सुनील दत्त) के माध्यम से (सभी निवासी) वी.पी.ओ. मोहम्मदपुर, करनाल-132 थे : 28-09-2023 		रू. 13,16,054/— 11—07—2023 तक तथा उस पर आगे ब्याज	सम्पत्ति सं. 142, परिमाप 125 वर्ग गज, सेल डीड वसीका नंबर 8189 दिनांकित 26–02–2010 के अनुसार पंजीकृत, स्थित गली नंबर 4, मोती नगर, तहसील और जिला करनाल।	
	न : चंडीगढ़ / करनाल	मैसर्स	चोलामंडलम	प्रार्धि इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस क	वपृशा जाववग

ऐक्सिस बैंक लि0 आधिपत्य नो

रिटेल एसेट्स सटरः प्रथम तल, जा—4/5 बा सटर—4, गामता नगर विस्तार, लखनऊ— 226010 रजिस्टर्ड ऑफिस: (त्रिशुल), ततीय तल, समराथेवर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमद

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ प के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त

IMPORTANT"	आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
sible to verify its contents. The Indiar d cannot be held responsible for such	गुजरात-362266 शाखा कार्यालय: 3रा तल, कैपिटल हाउस,
any loss or damage incurred as a	
ons with companies, associations of	
sing in its newspapers or Publications ecommend that readers make ies before sending any monies of y agreements with advertisers of on an advertisement in any manner	जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत
म्पनी लिमिटेड डस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, तीय तल, सेक्टर–34 ए, र–12, करनाल–132001	ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 25 सितम्बर, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति
कारी के रूप में, वित्तीय प्रेनियम कहा गया है, के 3(12) के तहत शक्तियों	का व्यवसाय रूप से ऋग्यास्य तथा जाने जगता का रतिपूछारी सराय विभागता काला है कि ये वहा गांव वागती सम्पार का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का व्यवसाय रु. 26,38,006.07/- (रु. छब्बीस लाख अड़तीस हजार छ: एवं पैसे सात मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
जिनके नाम कालम (बी) की तिथि से 60 दिन के	ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
	अचल सम्पत्ति का विवरण
एण को सूचना दी जाती यम 9 के तहत उसको जलम (एफ) में निदर्शित	'' भोपाल सिंह रोड, उत्तर प्रदेश-250001 में स्थित व्यवसायिक दुकान प्रा.नं. 22, माप 13.37 वर्ग मी. अर्थात् 16 वर्ग याईस, छत के अधिकार के बिना, सम्पत्ति नगर, निगम पुराना सं. 163, 167 तथा फिर 67/1ए एवं 171 का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहदीः पूर्वः 14'/कॉमन पैसेज/रास्ता, पश्चिमः 14' श्रीमती
नहीं करने हेतु सावधान ोंस कम्पनी लिमिटेड की	गंगा देवी, पत्नी श्री धरम चंद तेजवानी का शॉप, उत्तरः 10'3''/कॉमन पैसेज/रास्ता, दक्षिणः 10'3''/श्री राज कुमार की सम्पत्ति''।
ाशि सभी लागतों, प्रभारों	तिथिः 25.09.2023 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः मेरठ आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
ई सम्पत्ति कब्जा की रण तिथि (एफ)	क्लिक्स हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः अगरवाल कॉर्पोरेट टावर, प्लॉट नं. 23, 5वाँ तल, गोविन्द लाल सिक्का मार्ग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
.2, परिमाप 26–09–2023	कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(1)
सेल डीड र 8189 -02-2010	जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (यहां के बाद ''अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत क्लिक्स हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (क्लिक्स), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के अंतर्गत एक हाउसिंग फाइनांस बैंक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालयः अगरवाल कॉर्पोरेट टावर, प्लॉट नं. 23, 5वां तल, गोविन्द लाल सिक्का मार्ग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110018 में है, के
पंजीकृत, र 4, मोती और जिला	प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 17 अप्रैल, 23 जारी कर
प्राधिकृत अधिकारी फायनैंस कम्पनी लिमिटेड	 विकास शर्मा, पुत्र विनोद कुमार ए-3/67, प्रथम तल, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली- 110063 फोन नं. 8527868422, ईमेल आईडी-VIKAS.SHARMA24@gmail.com, साथ ही: जेएमब लॉजिस्टिक्स, ए-3/67, प्रथम तल, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110063 नेहा शर्मा, पत्नी विकास शर्मा, ए-3/67, प्रथम तल, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-
नोटिस	110063 फोन नं. 9711155725, ई-मेल आईडीः NHVATS30@gmail.com, साथ ही : यूनिट नं. 507, ब्लॉक ए, 5वां तल, एनडीएमआई, प्लॉट नं. बी-2, 3, 4, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली-110034 3. स्नेह शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, ए-3/67, प्रथम तल, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली,
ा, अहमदाबाद—380006	दिल्ली–110063 फोन नं. 8527868422 4. विशारध शर्मा, पुत्र विनोद शर्मा , ए-3/67, प्रथम तल, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली– 110063 फोन नं. 9899068506
न एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट के साथ पठित धारा 13(2)	 प्रीति शर्मा, पत्नी विशारध शर्मा, ए-3/67, प्रथम तल, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली- 110063 फोन नं 9899068505

2 28 मितंबर 2023

को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि अर्थात् रु 37,06,218.48/- (रु. सैंतीस लाख छ: हजार दो सौ अठारह पैसे अड़तालिस मात्र) के साथ लागू होने वाले ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

पंजीकृत कार्यालय : 2401, जनरल थिमैया रोड, (कैंटोनमेंट), पुणे-411 001 शाखा कार्यालय : संगम कॉम्पलेक्स. भतल. ऑफ मिर्जा इस्माइल रोड. जयपर-302006

कब्जा सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार]

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभुति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड का अधिक प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों से कथित सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए मांग सूचना निर्गत की थीं। कर्जदार/सह–कर्जदारों द्वारा राशि के पनर्भगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदारों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्ज कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त कर्जदार/सह–कर्जदारों और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

कर्जदारों का नाम तथा पता एवं मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति(यों) का विवरण तथा कब्जे की तिथि	कब्जा सूचना में मांगकृत राशि (रु.)
1. कृष्ण जांगिड़,	संपत्ति फ्लैट नंबर 62/2 का समस्त भाग, भूतल, 384 वर्ग	रु. 637046/-
2. प्रीति कालूराम,	फीट का क्षेत्रफल, बिल्डिंग नं. 62, पी. एच. नं. −62	(रुपये छः लाख
सभी का पताः 8−यू-65, गोकुल धाम सोसाइटी, कुड़ी	,61/2, 62, 63, 63/1, 63/2, खसरा क्रमांक 59, 59/1,	
भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, राजस्थान 34200	59/2, 61,61/1, 61/1, 61/1/1, ग्राम भगतासानी,	छियालीस मात्र) तिथि
मांग सूचना दिनांक: 23 फरवरी, 2023	तहसील लूनी, जिला जोधपुर	17 फरवरी, 2023
ऋण संख्या RHAHJOD000057120(PR00764841)	कब्जे को तिथि: 25-सितंबर-2023	तक
तिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य	में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की	ओर आकृष्ट किया जाता है
थान : जोधपुर		ह.∕ (अधिकृत प्राधिकारी
तथि : 28.09.2023	ap.	ते इंडसइंड बैंक लिमिटेड



(Formerly known as DU Digital Technologies Limited) Registered Office: C-4 SDA Community Centre Hauz Khas, New Delhi - 110016, India Telephone No.: 011-40450533 | Email: cs@dudigitalglobal.com | Website: www.dudigitalglobal.com Contact Person: Mr. Abhishek, Company Secretary and Compliance Officer Corporate Identification Number: L74110DL2007PLC171939

CORRIGENDUM TO THE PRE ISSUE ADVERTISEMENT("ADVERTISEMENT") DATED SEPTEMBER 26, 2023 PUBLISHED IN THE NEWSPAPERS ON SEPTEMBER 27, 2023 BY DUDIGITAL GLOBAL LIMITED ("THE COMPANY') FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY FOR THE ISSUE OF UP TO 1,16,22,080 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 26.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 24.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 3,079.85 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023 (THE "ISSUE").

This corrigendum ("Corrigendum") is in continuation of, and should be read in conjunction with the Advertisement dated September 26, 2023 and published on September 27, 2023 by the Company.

It may please be noted that the Issue Closing Date wherever appearing in the Advertisement shall be read as Monday, October 16, 2023 instead of Saturday, October 14, 2023.

All other particulars and details as mentioned in the Advertisement shall remain unchanged. This corrigendum is also available on the website of our Company at www.dudigitalglobal.com, the Registrar at www.bigshareonline.com and the Stock Exchange at www.nseindia.com.

> For Dudigital Global Limited On behalf of the Board of Directors Sd/-

शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विशयाधीन होगा। ऋणी/सह—ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

······································	Ch.11		·
खातेदार⁄गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	प्रका	मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि
मैo श्री सती दादी सिल्क स्टोर (ऋणी), नीरज अग्रवाल (सह—ऋणी) पुत्र किशोरी लाल अग्रवाल, दोनों का पता—1. प्लॉट नं० 135, निर्मल ब्लॉक बी—1 पशुलोक ऋषिकेश, देहरादून उत्तराखंड 249203,	सम्पत्ति स्थित स्टोर प्लॉट नं० 135 (भाग—1), मौजा वीरपुर खुर्द, निर्मल ब्लॉक बी—1, पुर्नवास स्थल, पशुलोक ऋषिकेश, देहरादून उतराखण्ड 249203 इंडिया, एरिया 200 वर्ग. मीटर, चौहददी —पूरब— स्वरूप सिंह तड़ियाल का	6	ন্ধ0 76,05,207.5 रू0 3,19,296.00 दि. 17.04.2021 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 01.05.2021
पता—2. यूनिट नं0 43, लेन नं0 9, स्टर्डिआ कॉलोनी, वीरभंडार रोड, ऋषिकेश, देहरादून उतराखण्ड—249201	मकान, पश्चिम– रोड, उत्तर– रोड, दक्षिण– अन्य की सम्पत्ति।	해	25.09.2023
श्री राजकुमार यादव (ऋणी) पुत्र श्री रोशन लाल यादव पताः 70, धर्मशाला के पीछे, राजीव नगर, चकरपुर, बाजपुर, यू०एस० नगर–262401, श्रीमती दयावती (सह–ऋणी) पत्नी श्री राजकुमार यादव पताः1. 71,	चकरपुर, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर (यू0के0) 263401, एरियाः 323.33 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती दयावती के नाम। चौहद्दी —	तेक कब्जा	रू0 20,18,031.00 रू0 25,053.00 दि. 17.12.2022 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
धर्मशाला के पीछे, राजीव नगर, चकरपुर, बाजपुर, यू0एस0 नगर– 262401, पताः2. खसरा नं0 4 मिन, ग्राम चकरपुर, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर (यू0के0) 263401, श्री रोशन लाल यादव (सह–ऋणी) पुत्र श्र	फीट चौड़ा रोड, उत्तर– सुरेश सिंह की भूमि, दक्षिण– 12 फीट चौड़ा रोड। भी बांके सिंह पताः मकान नं0 32, रामपुर	सांकेतिक	28.12.2022 22.09.2023
रोड, मुकुटपुर, लम्बाखेड़ा, शिव मंदिर के पास, रामपु दिनांकः 28.09.2023		कारी	, एक्सिस बैंक लि

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ManiBhasnam

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस,

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी, मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ,पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, एन-2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 (इसके बाद "एमबीएचएफ" के रूप में संदर्भित), जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2021 की एक अधिसुधना के माध्यम से, "वितीय संपत्तियों का प्रतिमुत्तिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमुति हित प्रवर्तन अधिनियम. 2002" के प्रयोजनों के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाएगा, के रूप में विधिवत अधिकृत किया गया है। इसके द्वारा आपको निम्नलिखित नोटिस जारी किया जाता है: --

 सुरिंदर कुमार अरोड़ा पुत्र अमर नाथ. 2 सी डब्ल्यूएच / 75, एनआईटी फरीदाबाद, वार्ड नं. 11, एनएच–2. शिवालय मंदिर के पास, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 फोन ने. 8447641410. **2 स्वर्गीय** सोनिया कुमार पत्नी सुरिंदर कुमार अरोड़ा, अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से, 2 सी डब्ल्युएच / 76, एनआईटी फरीदाबाद, वार्ड नं. 11, एनएच–2, शिवालय मंदिर के पास, फरीदाबाद, हरियाणा-121001

त्ररण खाता संख्याः LP00000000506	
प्राप्त ऋण राशिः रु. 6.00,000/- (छह लाख रूपये मात्र)	
13(2) नोटिस का दिनांक : 01.09.2023	एनपीए दिनांक : 10.08.2023

अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार मांग नोटिस तिथि और राशि : 29.08.2023 के अनुसार रु 8 97 699 21 / – (रुपये आठ लाख सत्तानववे डजार घड सौ निन्यानये और इक्रीस पैसे मात्र)

बंधक संपत्तियां: एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा–121001 पर स्थित क्वार्टर नं. 2सी / 75, विधवा घर, 107 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति के सभी ट्रकडे और अंश। विक्रय विलेख सं. 5933 दिनांक 13–07–2009, सब रजिस्ट्रार, फरीदाबाद में रजिस्ट्रार के माध्यम से पंजीकृत। बौहदी इस प्रकार है :- उत्तर: मकान नं, 74, पर्य: सडक, दक्षिण: मकान नं, 76, पश्चिम: सडक।

इसके अलावा, कारणों के साथ, हमारा मानना है कि आप मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस का प्रकाशन किया जा रहा है। आपसे इस मांग नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के मीतर मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अतिरिक्त ब्याज, लागत, आकस्मिक व्यय, शुल्क आदि के साथ जपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी प्रावधान के तहत सभी या किसी एक या अधिक सरक्षित संपत्तियों के विरुद्ध जिसमें उधारकर्ता / ओं की इस सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना भी शामिल है, हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की घारा 13(13) के तहत बिक्री/पट्टे के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त सरक्रित सम्पत्ति का स्थानान्तरण करने से प्रतिबंधित किया जाता है। जनमा शामन में कि कोई और मांग कोकिंग करने कही किया कामगा।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सुचित किय जाता है कि आज, 26 सितम्बर, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा अधोहरताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति क व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 13 अप्रैल, 2023 को **रु. 37,06,218.48**/ (**रु. सैंतीस लाख छ: हजार दो सौ अठारह पैसे अड़तालिस मात्र**) के साथ लागू होने वाले ब्याज तथा अन चार्जेज के लिये क्लिक्स के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभुत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम क धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

1 डाइंग सह डायनिंग रूम, 3 बेड रूम, 1 किचन, 3 टॉयलेट्स, 1 स्टोर के साथ डब्ल्यु.र्स तथा बॉल्कोनीज से शामिल नूर नगर ग्राम, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबात (उ.प्र.) में स्थित सम्पत्ति आवासीय फ्लैट नं. 503, पाँचवां तल, टावर-2 (लोटस-2), सपर एरिया 1590 वर्ग फीट (147.71 वर्ग मी.) तथा कवर्ड एरिया 123.142 वर्ग मी., गुलमोहर गार्डन, एम.आई.जी., छत के बिना, राजनगर एक्स्टें., गाजियाबाद का सभी भाग तथा हिस्सा चौहदीः उत्तरः 6 मी. चौड़ा रोड, भूतल पर, दक्षिणः पैसेज एवं सीढ़ी, पूर्वः भूतल पर खुल स्थान, पश्चिमः फ्लैट नं. 502

श्रानः गोलग तिथि: 26.9.2023 विलक्स हाउसिंग फाइनांस लिमिटेः



1.सीईआरसी (व्यवसाय का संचालन) विनियम 1999 के विनियम–86 और सीईआरसी (टैरिफ के नियम व शतें) विनियम 2019 के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदढीकरण- XL के अधीन परिसंपत्ति (01 नग) के लिए डीओसीओ से 31.03.2024 तक ट्रान्समिशन टैरिफ के निर्धारण हेत् अनुमोदन।

2. ऊपर वर्णित ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी हैं: (1) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (3) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (4) पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (5) हरियाणा पावर परचेज सेंटर (6) जम्मू और कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (7) उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, (8) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (9) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (10) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्युशन लिमिटेड (11) चंडीगढ प्रशासन (12) उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (13) उत्तर मध्य रेलवे (14) नई दिल्ली पालिका परिषद (15) हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

3. लाइन लम्बाई, बेज की सं., विभाजित अनुमोदित लागत (रु. लाख में), वाणिज्यिक | प्रचालन की तिथि एवं वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक पंजी लागत (रु. लाख में):

आस्ति	लाइन लम्बाई (किमी.	and we are to set	लागत	ं अनुमोदित (एफआर) नाख में)	डीओसीओ	ढीओसीओ को पूंजी लागत (रु. लाख में)
आस्ति	8	01 (400kV) GIS	21	2160.93		1476.37
।, टैरिफ उ	ग्वधि २०१	9—24 के लिए	वार्षिक ट्रांसां	मेशन टैरिफ	नीचे संक्षेप में	दिया गया है: (रु. लाख में)
आस्ति/ व	!रिफ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
					the second se	the second se
				• नकी एक	42.74 प्रति आवेदव	359.98 ह की वेबसाइन
5. टैरिफ www.po a. आवेदन सुझाव थ प्रति सति बिल्डिंग,	wergrid. में निहित प्रौर आप हेत, सचि , जनपथ) को इस	n पर प्रकाशित 1 टैरिफ के निध त्तेयां, यदि कोई व, केन्द्रीय विद्य	की गई है। र्गरण हेतु प्रर हों, आवेदर त विनियाम 10 001 (य	त्तावों पर ला रु को उसके क आयोग, त । अन्य पता	प्रति आवेदव भार्थी सहित वि कॉर्पोरेट कार गिसरा एवं चौध पर जहां आयं	क की वेबसाइ केसी व्यक्ति द्वार र्पालय पते में एव या तल, चंद्रलोव ोग का कार्यालग्

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का लग्रम

कार्यालयः बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 कॉर्पोरेट कार्यालयः "सौदामिनी", प्लाट नंबर 2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001

(www.nseindia.com) through NSE during the Tendering Pe	endered shall be displayed on NSE's website on the trading session at specific intervals by		and this DPS is expected to be available on SEBI's website
 will be debited from the demi 14. The detailed procedure for available in the LOF which (www.sebi.gov.in). 15. Equity Shares shall not be support of the second statement o	tlement, only accepted quantity of Equity Shares at account of the concerned Public Shareholder. tendering the Equity Shares in the Offer will be is expected to be available on SEBI's website ubmitted or tendered to the Manager, the Acquirer	(www.sebi.gov.in).	
 accept full responsibility for the other than as specified in p the Acquirer laid down in the All the information pertaining this DPS or any other adverted open Offer has been compiled sources or provided by the T Seller contained in the PA or made in connection with the The Acquirer does not accep provided in the PA or this DP 	the information contained in the PA and this DPS aragraph 2 below) and also for the obligations of SEBI (SAST) Regulations in respect of this Offer. g to the Target Company contained in the PA or isement/publications made in connection with the ed from information published or publicly available arget Company. The information pertaining to the this DPS or any other advertisement/publications e Open Offer has been obtained from the Seller. t any responsibility with respect to any information PS pertaining to the Target Company or the Seller.	KEINTECH	SEBI Registration No.: MB/INM000011336 Registrat to the Offer KFin Technologies Private Limited") Selenium, Tower B, Plot No- 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi 500032, Telangana, India. Tel: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551 E-mail: glenmark.openoffer@kfintech.com Website: www.kfintech.com Contact Person: Mr. M Murali Krishna SEBI Registration Number: INR00000221 CIN: L72400TG2017PLC117649
 Any discrepancy in any table is due to rounding off and/or 	e between the total and sums of the amount listed regrouping.	Nirma Limited Sd/- Place : Ahmedabad	
	 will be debited from the dem 14. The detailed procedure for available in the LOF which (www.sebi.gov.in). 15. Equity Shares shall not be su and / or the Target Company IX. OTHER INFORMATION 1. The Acquirer and its director accept full responsibility for (other than as specified in p the Acquirer laid down in the 2. All the information pertaining this DPS or any other advert Open Offer has been compile sources or provided by the T Seller contained in the PA or made in connection with the The Acquirer does not accep provided in the PA or this DP 3. In this DPS, all references to 4. Any discrepancy in any table is due to rounding off and/or 5. Unless otherwise stated, the 	 will be debited from the demat account of the concerned Public Shareholder. 14. The detailed procedure for tendering the Equity Shares in the Offer will be available in the LOF which is expected to be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in). 15. Equity Shares shall not be submitted or tendered to the Manager, the Acquirer and / or the Target Company. IX. OTHER INFORMATION 1. The Acquirer and its directors, in their capacity as directors of the Acquirer, accept full responsibility for the information contained in the PA and this DPS (other than as specified in paragraph 2 below) and also for the obligations of the Acquirer laid down in the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Offer. 2. All the information pertaining to the Target Company contained in the PA or this DPS or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or publicly available sources or provided by the Target Company. The information pertaining to the Seller contained in the PA or this DPS or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or publicly available sources or provided by the Target Company. The information pertaining to the Seller. The Acquirer does not accept any responsibility with respect to any information provided in the PA or this DPS or any other advertisement/publications 3. In this DPS, all references to "INR" are references to Indian Rupees. 4. Any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping. 5. Unless otherwise stated, the information set out in this DPS reflects the position as of the date of this DPS. 	 will be debited from the demat account of the concerned Public Shareholder. 14. The detailed procedure for tendering the Equity Shares in the Offer will be available in the LOF which is expected to be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in). 15. Equity Shares shall not be submitted or tendered to the Manager, the Acquirer and / or the Target Company. 17. The Acquirer and its directors, in their capacity as directors of the Acquirer, accept full responsibility for the information contained in the PA and this DPS (other than as specified in paragraph 2 below) and also for the obligations of the Acquirer laid down in the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Offer. 2. All the information pertaining to the Target Company contained in the PA or this DPS or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or publicly available sources or provided by the Target Company. The information publications made in connection with the Open Offer has been compiled from the Seller. The Acquirer does not accept any responsibility with respect to any information provided in the PA or this DPS or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been obtained from the Seller. The Acquirer does not accept any responsibility with respect to any information provided in the PA or this DPS pertaining to the Target Company or the Seller. 3. In this DPS, all references to "INR" are references to Indian Rupees. 4. Any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping. 5. Unless otherwise stated, the information set out in this DPS reflects the position as of the date of this DPS.

BACK PAGE 24

FINANCIAL EXPRESS

At 2.7 million, mobile user additions in July highest in over a year

Asian Games: Indian shooters on target, MBBS dropout strikes gold

JATIN GROVER New Delhi, September 27

THE TOTAL MOBILE user additions in July at 2.7 million were the highest in last 13 months in the country, according to data by the Telecom Regulatory Authority of India (Trai).

The growth in subscriber base was contributed by telecom operators Jio and Airtel.

An overall net increase in subscriber base suggests a rise in mobile penetration in the country and that telecom companies can prepare for next leg of tariff hikes, according to analysts.

The total mobile subscriber base was at 1.146 billion as of July end.

Among the telcos, Reliance Jio's subscriber additions were also the highest in last one year, while Airtel's subscriber additions were highest in last six months.

Jio added 3.9 million mobile subscribers, taking its total base to 442.5 million, whereas Airtel added 1.52 million subscribers, and its mobile user base as of July end was at 375.24 million.

In the wireline segment too, Jio continues to lead.

WIRELESS	SUBSCRIBE	RS I	N JULY	N.		
Total mobile subscriber base at	Vodafone IdeaJio wirelinemarket sharesubscribersfalls belowtop			A		
1.146 bn	20%	10	mn	THE K(H)		
	Wireless Change in r subscribers* subscribers					
Reliance Jio	442	.5	≈ 3.9	38.6		
Bharti Airtel	375.24		≈ 1.5	32.74		
Vodafone Idea	228.3		<mark>¥ 1.3</mark>	9.92		
BSNL	98.1		≥ 1.4	8.57		
(As of July 31)	in million					

Idea the absence of funding as well as 5G services, weak spends on the network is leading to subscriber loss, according to analysts.

As of July-end, Reliance Jio has a wireless subscribers' market share of 38.60%, up from 38.35% in June.

In comparison, Bharti Airtel's market share rose to 32.74% from 32.68% in June, whereas Vodafone Idea's share fell to 19.92% from 20.08% in the wireless subscribers' segment.

As per the TRAI data, barscribers in July. ring Punjab, Kolkata, and Andhra Pradesh, all other service areas have shown growth in their wireless subscribers during July. In urban areas, the overall mobile subscriber rose to 628.55 million from 626.07, whereas the rural subscriber base rose to 517.69 million from 517.51 million. Of the total 1.146 billion subscribers, 1.046 billion or 91.29% were active, according to the peak visitor location register, which shows the number of active subscribers,

MIHIR VASAVDA Hangzhou, September 27

DEEP IN THE cramped, dimly-lit bowels of the sprawling Fuyang Yinhu Sports Complex, Sift Kaur Samra, 22, leans on a pillar, clutches her gold and silver medals, and talks about career choices -- a past in medicine, present in sport, and a future, she hopes, in civil services.

Six months ago, the rifle shooter found herself at a crossroads after winning her first senior international medal. Until then, Samra was an MBBS student, preparing to be a doctor. But a bronze medal at the World Cup in Bhopal gave rise to lofty sporting ambitions.

"Soon after, I dropped out of MBBS," she says. The decision to abandon a career in medicine and pursue sport – unconventional in most Indian households – was a call taken by her parents. And Samra went along, with full conviction.

On Wednesday, their leap of faith bore rewards.

Samra won an individual gold in the 50m Rifle 3-position event -- dubbed as the Test match of shooting for its punishing nature, length of match and unique challenges 4G subscriber additions for -- and set a world record to



Sift Kaur Samra after winning the gold medal in the

three bronze medals.

ing nerves of steel in a tense

https://www.indianbank.in/tenders

and GeM portal for details.

overall tally to 22, with 5 gold, 7 silver and 10 bronze, plac-

ing sixth on the medals' table. More than half of India's medals - 12 - are from shooting, a sport that has been in the dumps after an Olympicsize disaster in Tokyo.

In the bigger picture, the team medals -- which aren't handed at the Olympics – may not mean much. But Pierre Beauchamp, Indian shooting's high-performance director, said it was an indication of "depth" in each discipline.

"We are building a template for the Olympic Games," says Beauchamp. "We have depth in all of the domains and you see it here. Team medals by themselves are one thing. But when you get team medals and individual medals, that's key."

In this context, Samra's gold assumes high significance. Her day began by teaming up with Chouksey and Kaushik to win the silver. The trio began shooting around the same time, roughly five years ago, but their initiation to the sport was different.

Chouksey started shooting only so that she could skip the NCC lessons; Kaushik learnt the sport by aiming at balloons on the terrace of her house; while Samra picked up the sport because of her says. "So I was just preparing for that."

The 3-position event tests an athlete's ability in kneel ing, prone and standing positions. With two Chinese shooters in the fray for a medal, Samra needed a strong beginning, because very rarely at these Games have the home country's shooters let a lead slip.

"I knew if we could get into the lead first, we would be able to build on it," she says."I am strong in standing posi tion, so I focussed on getting the kneeling (part) right."

Her start was wobbly, but after five shots, Samra looked at the screen in front of her and realised she was still with the rest of the pack. Not willing to take the match to the final few shots, she let it rip. And by the time the prone position ended – after 10 shots - Samra had built a healthy 3-point lead over her closest opponent, China's Zhang Qiongyue.

She continued to shoot with a surgeon's precision in the final segment of the match, also her most favoured, consistently getting closer to the bulls-eye while others in the field struggled to get anywhere close.

She ended with nearly seven points more than the

by an Indian shooter at these

Games so far. It would have

been an India gold and silver,

but Chouksey endured a

heartbreak on the final shot,

The operator, for the first time, crossed 10 million wireline subscribers in July, Trai data showed.

Both Airtel and Jio are also gaining subscribers as Vodafone Idea continues to lose subscribers for the 28th straight month in July.

Trai data suggests that for the first time, Vodafone Idea's market share fell below 20%.

In July, the company lost 1.3 million subscribers, taking its total base to 228.3 million. State-owned BSNL lost wireless subscribers for the 19th straight month.

In July, the company lost 1.4 million wireless subscribers, taking its total base to 98 million.

unnouncement or the offer documer

While for BSNL, the subscriber loss is due to absence of 4G services, for Vodafone

including those roaming on a mobile operator's network. The total active subscriber base during the month rose

by 3.6 million. While for Airtel, all its subscribers were active during

the month, whereas Jio's active subscribers base was at 415.94 million, with an addi-

Airtel and Jio came on the back of the shift in the subscriber base from 2G as well as loss of subscribers by Vodafone Idea, according to analysts. Since Jio's network is com-

pletely on 4G from the start. its 4G subscriber addition is the same as that of total additions.Airtel added 2.9 million 4G subscribers, taking its total 4G subscribers to 244.41 million.

tion of 1.4 million active sub-

continue to lose active sub-

scribers by 413,345 and

364,300, respectively, during

active subscriber base was at

202.3 million, while that of

scriber base, both Jio and Air-

tel added 6.8 million sub-

scribers, whereas Vodafone

Idea lost 0.6 million sub-

With regard to the 4G sub-

BSNL was at 51.6 million.

Vodafone Idea's total

the month.

Vodafone Idea and BSNL

scribers during the month.

Vodafone Idea's 4G subscriber base was at 124.27 million as of July-end.

Airtel's wireline subscriber base at the end of July was at 7.6 million, whereas BSNL's subscriber base in the segment was at 6.4 million. During the month, BSNL lost 41,779 users in the wireline segment, whereas Airtel added 150,311 users.

her name with a tally of 469.6 in the final. She also teamed up with Ashi Chouksey, who also won an individual bronze, and Manini Kaushik for a team silver.

"Having the India flag (fly) in China is a great experience," she says." It's very emotional."

Samra's dominant display from start to finish stood out on a day when India dominated the pistol, rifle and individual final, where she

women's 50m rifle 3 positions event in Hangzhou on Wednesday.

shotgun ranges, winning won a silver medal.

seven medals in total, includ-Across the road at the ing two gold, two silver and shotgun range, Anand Jeet Naruka, Angad Vir Bajwa and Earlier, the 25m pistol Gurjot Khangura won the team of Manu Bhaker, Esha team bronze in skeet shoot-Singh and Rhythm Sangwan ing, before Naruka played the won the team gold, which was "best match" of his life to win an individual silver. followed up with Esha show-

The medal rush at the shooting ranges took India's gold at these Games," she

ΡΤΙ

second-placed Chinese, a cousin, also a shotgun kind of dominance not seen shooter.

Of the three, Samra has looked unflappable this year.

On a hot streak, having also won an Olympic quota recently, Samra woke up Wednesday morning with a "burning desire" to win India's elusive individual gold in shooting. "That was missing and I wanted to be the first one to win an individual

where a poor 8.9 saw her concede the second position to Zhang Qiongyue. The team silver, and the overall medal rush, however, more than made up for that disappointment.



Z • <i>E</i>	VISHNU PRAKASH R PUNGLIA LIMITED
V	Registered Office: Unit No. 3, 5 Floor, B-wing, Trade Star Premises Co-operative Society Limited, Village Kondivita, Mathuradas Vasanji Road, Near Chakala Metro Station, Andheri (East), Mumbai – 400059, Maharashtra, India; Tel: +91 22 40164020; Website: https://www.vprp.co.in;
VPRPL	Corporate Identity Number: U45203MH2013PLC243252

nt of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 30^m June, 2023

s IIA)	amounts	are in	Rupees	Millions,	unless	otherwise	stated)
--------	---------	--------	--------	-----------	--------	-----------	---------

		For the Quarter ended			Year ended
	Particulars	June 30, 2023	March 31, 2023	June 30, 2022	March 31, 2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
	Total Income From Operation	2,781.70	4,551.84	1,861.44	11,684.04
	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	219.45	525.20	143.93	1,224.39
	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	219.45	525.20	143.93	1,224.39
	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	164.36	384.21	107.75	906.43
1	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	163.43	389.01	107.85	913.17
	Equity Share Capital	934.44	934.44	281.48	934.44
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				2,210.63
	Basic EPS & Diluted EPS (INR)	1.88	4.41	0.57	10.41

Note:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges unde Regulation 33 of SEBI (listing obligations and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the website of the stock exchange and the listed entity (www.nseindia.com, www. bseindia.com and www.vprp.co.in respectively)

For and on Behalf of Board of Directors VISHNU PRAKASH R PUNGLIA LIMITED

SD Manohar Lal Punglia Managing Director (DIN: 02161961)

Date: 25ⁿ September 2023 Place: Jodhpur

announcement or the offer docu	iment.						
Varaniium	RANIUM CLOU	ID LIMITED					
Corporate Identificat	ion Number: U642001	MH2017PLC303172					
	iloor, Plot No. 244-A RDP 2, C1 Bungalows, Mumbai – 400053						
	lo: +91 22 2632 5683 / + 91 897						
Contact Person: Ms. Hetal Ha		etary & Compliance Officer					
ISSUE OF UP TO 40,20,574 E							
	OF OUR COMPANY FOR CAS REMIUM OF RS. 118/- EACH PE						
"ISSUE PRICE") FOR AN AG	GREGATE AMOUNT UP TO F	Rs. 4946.00 LAKHS * ON A					
RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1(ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 10 (TEN) FULLY PAID-UP							
EQUITY SHARES HELD BY TH	E ELIGIBLE EQUITY SHAREH	OLDERS ON THE RECORD					
DATE, THAT IS ON FRIDAY, SE PRICE FOR THE RIGHTS EQU							
EQUITY SHARES. FOR FURTH							
ASSUMING FULL SUBSCRIPT	TION WITH RESPECT TO RIGH	TS EQUITY SHARES.					
PROMOTER OF OUR CON	IPANY: MR. HARSHAWARDH	AN HANMANT SABALE	No				
RIGHT ISSUE EXT	ENDED: REVISED ACTIV		Act Tra				
ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR MARKET RENUNCIATION*	UPTO**	sha				
Thursday, September 28, 2023			by				
Rights Entitlements are credited working days prior to the issue cl	osing date.		Aur				
** Our Board or a duly authorized committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.							
Simple Safe Sm	art way of Application - Make	use of it!!!	COL				

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an

invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an

Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!

ASBA *Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below.

FACILITY FOR THE APPLICATION IN THE ISSUE

MC Global Securities Limited NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS insfer of Equity Shares and unpaid/unclaimed dividend rtaining to Interim Dividend of the F.Y. 2016-2017 of the

any to Investor Education and Protection Fund Authority

is hereby given that pursuant to provisions of Section 124(6) of the Companies 13 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, r and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time (the "Rules"), the equity of the Company with respect of which dividend has not been paid or claimed by reholders for seven (7) consecutive years or more are required to be transferred Company to the demat account of the Investor Education and Protection Fund ty (the "Authority"). In this regard the Interim dividend of F.Y 2016-2017 declared Company is becoming due for transfer to the Authority on 01st January, 2024. In ard the unclaimed / unpaid dividend pertaining to the Interim dividend for the F.Y 017 is also due for the transfer.

pliance with the Rules the Company has sent individual communications to the ned shareholders at their latest available address to claim such dividend(s) and corresponding shares. This communication is addressed to those shareholders whose shares are liable to be transferred to the Authority during financial year 2023-2024 for taking appropriate action.

The Company has also uploaded full details of such shareholders including their names, folio number or DP ID & Client ID and equity shares due for transfer to the Authority on its website https://smcindiaonline.com/. Shareholders are requested to refer to the said website to verify the details of unpaid/unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to the Authority. The concerned shareholders, holding equity shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for converting the said shares into demat form, after following the procedures as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs. Thereafter, the said shares would be transferred in favour of the Authority. The original share certificate(s) registered in the name of the shareholder(s) will stand automatically cancelled. For the equity shares held in demat form, the Company would inform respective depository by way of corporate actions, where the shareholders have their account for the transfer of such shares in favour of the Authority. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 31st December, 2023. The Company without any further notice shall in compliance with the Rules, transfer such shares and dividend to the Authority by the due date in accordance with the procedure stipulated in the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares transferred to the Authority. However, the unclaimed dividend and shares transferred to the Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the concerned shareholders from the Authority after following the procedure prescribed by the Rules. For more details please refer www.iepf.gov.in and also on Company website at https://smcindiaonline.com/ In case of any queries in respect of the above matter, shareholders may contact the Registrar and Transfer Agent of the Company, Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH-2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel no. 011-41410592-94, E-mail id: delhi@linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in

In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Rights Issue circular and ASBA circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to mandatorily use the ASBA process only in this Issue. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA under the Paragraph titled 'Procedure for Application through the ASBA Process' of the Letter of Offer.

PLEASE NOTE THAT ONLY RESIDENT INVESTORS CAN SUBMIT THEIR APPLICATON USING THE ASBA PROCESS ONLY, ASBA FACILITY IS OPERATIONAL FROM THE ISSUE OPENING DATE.

LAST DATE FOR APPLICATION: This is to inform to the Eligible Shareholders of the Company that the date of the closure of the right issue which opened on 28" September 2023 scheduled to close on 4" October, 2023 has now been extended by the company from 28" September, 2023 to 6" October, 2023 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the right issue.

ACCORDINGLY THE LAST DATE OF SUBMISSION OF THE DULY FILLED IN APPLICATION FORM IS FRIDAY, 6TH OCTOBER, 2023 BEING THE ISSUE CLOSING DATE

ALLOTMENT ONLY IN DEMATERIALISED FORM: In accordance with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the credit of Rights Entitlement and the Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only Accordingly, the Rights Entitlement of Physical Shareholders has been credited in the suspense escrow demat account opened during the Issue Period. Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous o subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their dema account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts. The Rights Entitlement of the Physical Shareholders who do not furnish the details of their dema account to the Registrar two Working Days prior to the Issue Closing Date, shall lapse.

For further details, please refer to the Paragraph titled Process of Credit of Rights Entitlements in dematerialized account and 'Procedure for Application through the ASBA Process' on page numbers 142 and 149, respectively of the Letter of Offer.

ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE ISSUE CLOSURE i.e FRIDAY, October 6[™], 2023. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, STATUTORY ADVERTISEMENT, ENTITLEMENT LETTER AND APPLICATION FORM EXCEPT THE MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE, RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMETABLE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

For, Varanium Cloud limited Sd/-

Hetal Somani

Date:	26/09/2023	
Place	: Mumbai	



For SMC Global Securities Limited

Sd/-(Suman Kumar) E.V.P. (Corporate Affairs & Legal) Company Secretary & General Counsel Date: 28th September, 2023 Place: New Delhi Corporate Identity Number (CIN: L74899DL1994PLC063609)

Registered Office- 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005 Ph: +91-11-30111000, 40753333 | Fax: +91-11-25754365

E-mail: smc@smcindiaonline.com I Website: www.smcindiaonline.com



For Dudigital Global Limited On behalf of the Board of Directors Sd/-Abhishek Company Secretary and Compliance Officer



Date: September 27, 2023

Place: New Delhi









DUDIGITAL GLOBAL LIMITED

(Formerly known as DU Digital Technologies Limited) Registered Office: C-4 SDA Community Centre Hauz Khas, New Delhi - 110016, India Telephone No.: 011-40450533 | Email: cs@dudigitalglobal.com | Website: www.dudigitalglobal.com Contact Person: Mr. Abhishek, Company Secretary and Compliance Officer Corporate Identification Number: L74110DL2007PLC171939

CORRIGENDUM TO THE PRE ISSUE ADVERTISEMENT("ADVERTISEMENT") DATED SEPTEMBER 26, 2023 PUBLISHED IN THE NEWSPAPERS ON SEPTEMBER 27, 2023 BY DUDIGITAL GLOBAL LIMITED ("THE COMPANY') FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY FOR THE ISSUE OF UP TO 1,16,22,080 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 26.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 24.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 3,079.85 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023 (THE "ISSUE").

This corrigendum ("Corrigendum") is in continuation of, and should be read in conjunction with the Advertisement dated September 26, 2023 and published on September 27, 2023 by the Company.

It may please be noted that the Issue Closing Date wherever appearing in the Advertisement shall be read as Monday, October 16, 2023 instead of Saturday, October 14, 2023.

All other particulars and details as mentioned in the Advertisement shall remain unchanged. This corrigendum is also available on the website of our Company at www.dudigitalglobal.com, the Registrar at www.bigshareonline.com and the Stock Exchange at www.nseindia.com.